

प्रेस नोट दिनांक-10.10.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री राजीव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राधेश्याम तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 310/2021 धारा 307/504/34 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त मनोज बिलौगा उर्फ मनो कुमार द्विवेदी पुत्र संतोष कुमार द्विवेदी निवासी इलाहाबाद रोड शोभा सिंह का पुरवा कर्वी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट01 अदद पिस्टल 32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अवैध पिस्टल व कारतूस की बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में अभियुक्त मनोज उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 381/2021 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

1. 01 अदद अवैध पिस्टल 32 बोर
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह
3. आरक्षी रोहित यादव
4. आरक्षी रंजीत यादव

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री योगेश तिवारी तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 27/2012 धारा 147/148/149/307/436/353/336504/506 भादवि0 व 07 क्रि0ला0अ0 एक्ट व ¾ लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त राजा पुत्र छुट्टन निवासी हनुमान टोला कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. वरि0उ0नि0 श्री योगेश तिवारी थाना राजापुर
2. आरक्षी जीतेन्द्र कुमार

(3). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 10.10.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा बाजार, डॉट पुल, बस स्टैण्ड आदि स्थानों में, एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा कस्बा रैपुरा में, एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा कस्बा मारकुण्डी में, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा परानू बाबा मन्दिर में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुंगी चौराहा, भैरो पागा, काली माता मन्दिर में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया। एण्टी रोमियो टीम की महिला आरक्षियों द्वारा बालिकाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गयी। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की

समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियों टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

भ्रमण के दौरान महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हैल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हैल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया।

(4). आजादी का अमृत महोत्सव के क्रम में आज दिनांक-10.10.2021 पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना/चौकी/कार्यालय/पुलिस लाइन/फायर स्टेशनों में पुलिसकर्मियों द्वारा साफ-सफाई अभियान चलाया गया। थाना/चौकी/कार्यालय/पुलिस लाइन में नियुक्त पुलिसकर्मियों द्वारा थाना/चौकी परिसर, पुलिस लाइन परिसर, कार्यालय, आवास में साफ-सफाई के साथ-साथ लगे कूलरों की भी सफाई की गयी साथ-साथ शस्त्रों की भी साफ-सफाई की गयी।

(5). चौरी चौरा जनक्रान्ति शताब्दी महोत्सव के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में आज दिनांक-09.10.2021 को क्षेत्राधिकारी नगर/लाइन्स श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में प्रतिस्तर निरीक्षक श्री सुमेर सिंह एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री राजीव कुमार सिंह की उपस्थिति में शहीद स्मारक एलआईसी तिराहा कर्वी में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गयी एवं उनकी याद में बैण्ड धुन के साथ राष्ट्रगान एवं देशभक्ति गीत गायन किया गया।

इस अवसर पर एसआई एपी श्री अब्दुल कदीर एवं सीआईसी इण्टर कालेज के एनसीसी कैडेट्स अपने सम्पूर्ण ड्रेस कोड के साथ उपस्थित रहे।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में यूपी 112 मुख्यालय लखनऊ से आयी, प्रचार-प्रसार की टीम बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचार-प्रसार करते हुए आज जनपद चित्रकूट पहुँची। जनपद में यूपी 112 मुख्यालय से आयी प्रचार-प्रसार टीम व जनपद चित्रकूट की टीम ने संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान की शुरुआत जनपद चित्रकूट के उच्चप्राथमिक विद्यालय भरतकूप से किया। जहाँ 120 छात्र-छात्राओं को बताया गया कि यूपी 112 कब व किन परिस्थितियों में मिलाए। इस दौरान विद्यालय में एक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया और बच्चों को उपहार बाँटे गए।

इसके पश्चात दूसरा जागरूकता कार्यक्रम थाना कोतवाली कर्बी अंतर्गत कस्बा शिवरामपुर में किया गया, जिसमें बड़ी मात्रा में लोगों ने हिस्सा लिया और जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर श्री राजेश कुमार सिंह व श्री अजय जयसवाल प्रभारी चौकी शिवरामपुर उपस्थित रहे। सभी नागरिकों, दुकानदारों को पंपलेट्स भी बाँटे गए।

इसके साथ ही पटेल तिराहा पर भी जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

अंतिम कार्यक्रम कर्वी रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक कर यात्रियों को बताया गया कि रेलवे प्लेटफार्म या चलती ट्रेन में आपात सहायता के लिए 112 डायल कर मदद प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में यात्रियों को जागरूक किया गया।

यूपी 112 की विभिन्न सेवाओं के बारे में बताया गया और यह भी बताया गया कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में 112 नम्बर डायल कर मदद प्राप्त कर सकते हैं।

मीडिया सेल प्रभारी 112 मुख्यालय लखनऊ ने नागरिकों को बताया कि आग लगने, एंबुलेंस की आवश्यकता होने, पुलिस सहायता तथा प्राकृतिक आपदा के समय 112 से संपर्क कर मदद ली जा सकती है। 112 से विभिन्न माध्यमों फोन करके, व्हाट्सएप (7570000100), एसएमएस (7233000100), ट्विटर, फेसबुक, इंटाग्राम आदि सोशल मीडिया पर भी आपात स्थिति में संपर्क किया जा सकता है।

इस अवसर पर जीआरपी प्रभारी चंद्र भूषण यादव व जीआरपी टीम भी उपस्थित रही, जिन्होंने यात्रियों को पैम्पलेट बाँट कर यात्रियों को जागरूक किया।